



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 466]
No. 466]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 23, 1978/कार्तिक 1, 1900
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 23, 1978/KARTIKA 1, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग
अधीक्षकनाएँ

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 1978

fill the said vacancy before the 4th December, 1978, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/BR-HP/1/78(1)]

का. आ. 603 (अ).—बिहार राज्य के 17-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री कपूरी ठाकुर द्वारा त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे छुट्टे रिक्त को भरने के लिए 4 दिसम्बर, 1978 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्विनिर्वाहक हुए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति नियुक्त कर दे।

[सं. 100/बिहार-लो. सं. /1/78(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 23rd October, 1978

S.O. 603(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Karpoori Thakur, a member elected to that House from 17-Samastipur Parliamentary constituency in the State of Bihar;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to

का. आ. 604(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/बिहार-लो. सं./1/78(1), तारीख 23 अक्टूबर, 1978 के अनुसरण में 17-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :-

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 30 अक्टूबर, 1978 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए तारीख 1 नवम्बर, 1978 (बुधवार)

(ग) अभ्यर्थिताएँ वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 3 नवम्बर, 1978 (शुक्रवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा 26 नवम्बर, 1978 (रविवार)

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचना समाप्त कर दिया जाएगा। 4 दिसम्बर, 1978 (सोमवार)

[सं. 100/बिहार-लो. सं./1/78(2)]

S.O. 604(E).—In pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 17-Samastipur Parliamentary Constituency in the

State of Bihar in pursuance of its notification No. 100/BRI-HP/1/78(1), dated the 23rd October, 1978—

- (a) 30 October, 1978 (Monday), as the last date for making nominations ;
- (b) 1 November, 1978 (Wednesday), as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 3 November, 1978 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) 26 November, 1978 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 4 December, 1978 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/BR-HP/1/78(2)]

क्र. आ. 605 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं. 100/बिहार लो. सं. 11/78(1), तारीख 23 अक्टूबर,

1978 के अनुसरण में 17-समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7-30 बजे प्राह्न से 4-30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में स्तब्ध द्वारा नियत करता है जिसके ध्यान यदि आवश्यक है तो, मतदान होगा।

[सं. 100/बिहार-लो. सं./1/78(3)]

वी. नागसुब्रमन्यम, सचिव

S.O. 605(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7-30 a.m. to 4.30 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 17-Samastipur Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/BR-HP/1/78(1), dated the 23rd October, 1978.

[No. 100/BR-HP/1/78(2)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.